



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1946 (श0)
(सं0 पटना 983) पटना, बुधवार, 9 अक्टूबर 2024

सं० 1/मु0स्था0रा0भू0/पदा0-01-05/2024-1271(1)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:- बिहार राज्य अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं के लिए रैयती भूमि अधिग्रहण के अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु भू-अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधीन गठित किये जाने वाले भू-अर्जन कोषांग हेतु भू-अर्जन विशेषज्ञ का संविदा आधारित एक (01) पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

8 अक्टूबर 2024

2. बिहार राज्य में चल रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 2013, एन0एच0एक्ट, 1956 एवं रेलवे एक्ट, 1894 के अधीन की जा रही भू अर्जन की कार्रवाई का मुख्यालय स्तर से सतत अनुश्रवण, विभिन्न विभागों से समन्वय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन में समुचित सहयोग हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों के जानकार एवं विशेषज्ञों का भू-अर्जन निदेशालय के अधीन "भू-अर्जन कोषांग" गठित करते हुए एक भू-अर्जन विशेषज्ञ (सेवानिवृत्त पदाधिकारी) की सेवा लेने हेतु भू-अर्जन विशेषज्ञ का संविदा आधारित 01 पद निम्नवत सृजित किया जाता है:-

क्र०	पदनाम	पदों की संख्या	योग्यता एवं अनुभव	मानदेय
1	भू-अर्जन विशेषज्ञ	01 (एक)	(भा0प्र0से0/बि0प्र0से0 के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के सेवानिवृत्त एवं भू-अर्जन कार्य के अनुभवी पदाधिकारी)	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में यथानिर्धारित नियत मानदेय

3. उक्त पद की सेवा शर्त/सुविधायें/भत्ता एवं आरक्षण रोस्टर संबंधी प्रावधान निम्नवत होंगे:-

योग्यता एवं अनुभव:-भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं भू-अर्जन/राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर न्यूनतम 3 वर्षों

का अथवा जिला स्तर पर न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव हो। सेवाकाल के अंतिम 5 वर्षों में कोई दण्ड अधिरोपित न हो।

चयन की प्रक्रिया:—उक्त पद हेतु अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन आमंत्रित कर, कार्यानुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर चयन किया जा सकेगा।

मानदेय:— सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में यथानिर्धारित नियत मानदेय अनुमान्य होगा।

आरक्षण रोस्टर:— उक्त नियोजन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग का संविदा के आधार पर नियोजन संबंधी संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 (समय-समय पर यथा-संशोधित) लागू होंगे।

4. प्रस्तावित पद के सृजन के फलस्वरूप कुल अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार ₹ 12,00,000/- (बारह लाख रुपये) मात्र अनुमानित है (व्यय विवरणी अनुलग्नक-01)। उपर्युक्त अनुमानित व्यय के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्तियों के लिए समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य सुविधायें/भत्ते भी देय होंगे।

5. उक्त व्यय का वहन मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवायें उप मुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-092-अन्य कार्यालय उपशीर्ष-0004 भू-अर्जन स्थापना प्रभार माँग सं0-40, विपत्र कोड सं0-40-2052000920004 के अंतर्गत मद संख्या-2802 संविदा सेवायें इकाई से राशि उपबंध कराकर किया जायेगा।

6. उपर्युक्त संविदा आधारित एक पद सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुसंशा एवं राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-01.10.2024 की बैठक में (मद संख्या 08) स्वीकृति प्राप्त है।

अनुलग्नक:—यथोक्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अनुलग्नक-01
अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र0	पदनाम	पद की सं0	संविदा मद की संभावित मासिक राशि	अनुमानित वार्षिक व्यय
1	भू-अर्जन विशेषज्ञ	01 (एक)	₹ 1,00,000/-	₹ 1,00,000 X12 = ₹ 12,00,000/- (बारह लाख रुपये) मात्र

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 983-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>